

तुरंत रिलीज के लिए

## सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने लगातार दूसरे वर्ष वर्ल्ड काउंसिल ऑन सिटी डेटा का प्लैटिनम-लेवल ISO डेटा सर्टिफिकेशन हासिल किया

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (13 अक्टूबर, 2021) – आज, वर्ल्ड काउंसिल ऑन सिटी डेटा (डबल्यू.सी.सी.डी.) (World Council on City Data) (WCCD) ने घोषणा की कि सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने लगातार दूसरे वर्ष के लिए, ISO 37120 प्लैटिनम-लेवल सर्टिफिकेशन हासिल किया है। यह प्रभावी ढंग से फैसले लेने के लिए डेटा एकत्र करने, साझा करने और प्रयोग करने में उच्चतम स्टैंडर्ड है।

35 देशों को उन 100 से अधिक ग्लोबल शहरों – और कैंनेडा के 30 शहरों – जो प्रभावी और सूचनात्मक फैसले लेने के लिए सिटी का डेटा एकत्र, साझा करते और प्रयोग करते हैं, के चुनिंदा ग्रुप के साथ जुड़कर, सिटी ने कैंनेडा सरकार द्वारा समर्थित [डेटा फॉर कैंनेडियन सिटीज प्रोजेक्ट \(डी.सी.सी.पी.\) \(Data for Canadian Cities Project\) \(DCCP\)](#) के भाग के तौर पर, डबल्यू.सी.सी.डी. के ISO 37120 स्टैंडर्ड के अंदर 104 इंडीकेटर्स में से 90 से अधिक की रिपोर्ट करते हुए, उच्चतम-लेवल की शर्त को पूरा किया।

डबल्यू.सी.सी.डी. ग्लोबल नेटवर्क (WCCD Global Network) के मेम्बर के तौर पर सिटी, सेवाओं और निवासियों की जीवन गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, पूरी दुनिया के अन्य डेटा-संचालित शहरों के मुकाबले, लोकल अनुभव और महत्वपूर्ण उपलब्धियां साझी करेगी। ब्रैम्पटन, अपने डबल्यू.सी.सी.डी. ग्लोबल नेटवर्क के साझेदारों के साथ, स्मार्ट, स्थिर, लचीली, खुशहाल और भागीदारी वाली कम्युनिटी बनाना जारी रखने के लिए, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय सूचकों का पता लगाएगा।

वर्ल्ड काउंसिल ऑन सिटी डेटा (डबल्यू.सी.सी.डी.) और सर्टिफिकेशन के बारे में अधिक जानकारी के लिए, [www.dataforcities.org](http://www.dataforcities.org) पर जाएं।

### डेटा फॉर कैंनेडियन सिटीज प्रोजेक्ट के बारे में

सिटी के लीडर्स को पूरे कैंनेडा में, उच्च-योग्यता वाला, तुलनात्मक और स्वतंत्र रूप से प्रमाणित म्युनिसिपल डेटे से लैस करने वाला, [डेटा फॉर कैंनेडियन सिटीज प्रोजेक्ट \(the Data for Canadian Cities Project\)](#) एक परिवर्तनकारी, तीन-वर्षीय, पूरे कैंनेडा का प्रोजेक्ट है, जो इस समय देश की पंद्रह डेटा-संचालित म्युनिसिपल्टीज में चल रहा है। फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटीज (Federal Ministry of Infrastructure and Communities) द्वारा समर्थित यह प्रोजेक्ट, सिटी के लीडर्स को न केवल उस तरह का डेटा प्रदान करता है, जिसकी उन्हें महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए जरूरत है, बल्कि कैंनेडा के तीस शहरों और पूरी दुनिया के 100 शहरों के साथ ठोस, निष्पक्ष तुलनाओं को सक्षम बनाते हुए, अंदरूनी मानदंड पैमाने को भी मज़बूत बनाता है। स्थिरता संबंधी नियोजन को मज़बूत बनाने से लेकर, आर्थिक विकास को तेज़ करने, जलवायु-बदलाव संबंधी उद्देश्यों को हासिल करने और महत्वपूर्ण निवेश फैसलों के बारे में सूचित करने तक, डेटा फॉर कैंनेडियन सिटीज प्रोजेक्ट (Data for Canadian Cities Project), पूरे देश में म्युनिसिपल

संबंधी फैसले लेने वालों को जरूरी डेटा प्रदान करता है, जिसकी उन्हें अधिक स्मार्ट, अधिक स्थिर, लचीली, खुशहाल और भागीदारी वाली कम्युनिटीज बनाने के लिए जरूरत है।

## हवाले

“ब्रैम्पटन एक अच्छी तरह संचालित शहर है और हम भागीदारी वाली ऐसी कम्युनिटी बना रहे हैं, जो सुरक्षित, स्थिर और सफल हो। डेटा-संचालित फैसले करने के द्वारा, हम लगातार हमारे निवासियों की जीवन गुणवत्ता में सुधार करना जारी रखेंगे। हमें, डबल्यू.सी.सी.डी. के द्वारा लगातार दूसरे वर्ष, ISO 37120 प्लैटिनम-लेवल सर्टिफाइड के तौर पर सम्मानित किए जाने पर गर्व है और हम, हमारे निवासियों और कैंनेडा में रहने वाले लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, डबल्यू.सी.सी.डी. ग्लोबल नेटवर्क के साथ हमारे लोकल अनुभव साझे करने के साथ-साथ, दूसरे शहरों से भी सीखने के लिए उत्साहित हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हमारे निवासियों के लिए प्रभावी फैसले करने के लिए डेटा जरूरी है और प्रभावशाली डबल्यू.सी.सी.डी. ग्लोबल नेटवर्क के हिस्से के तौर पर हम, ब्रैम्पटन में और पूरे कैंनेडा के लोगों की ज़िंदगियों में सुधार करने के लिए, अन्य डेटा-संचालित कम्युनिटीज से सीखने के लिए इकट्ठे मिलकर काम करने और कीर्तिमान स्थापित करने में सक्षम हैं। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को, लगातार दूसरे वर्ष वर्ल्ड काउंसिल ऑन सिटी डेटा द्वारा सम्मानित किए जाने पर गर्व है। हम प्रमाण-आधारित फैसले लेकर, हमारी स्थिरता और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे।”

- हरकीरत सिंह (Harkirat Singh), चेयर, कार्पोरेट सर्विसिज; सिटी काउंसलर, वार्ड्स 9 और 10, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, टर्म ऑफ काउंसिल प्राइरिटी: ब्रैम्पटन एक अच्छी तरह संचालित शहर है, को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, और – जैसे कि जो वर्षों तक डबल्यू.सी.सी.डी. के द्वारा ISO 37120 प्लैटिनम-लेवल सर्टिफिकेशन प्राप्त करके यह सिद्ध हो चुका है – हमने इनोवेशन और डेटा-संचालित फैसले लेने में ग्लोबल लीडर के तौर पर सम्मानित होना जारी रखा है। हमारी टीम लगातार, हमारे निवासियों के लिए सुरक्षित, स्थिर और सफल शहर बनाने का प्रयास कर रही है और इकट्ठे मिलकर काम करने और प्रमाण-आधारित फैसले लेने के लिए हमारे साझेदारियों की सहायता से ऐसा करना जारी रखेगी।”

- डेविड बैर्रिक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“डबल्यू.सी.सी.डी. की ओर से मुझे, दूसरे वर्ष उच्चतम, प्लैटिनम-लेवल पर, डबल्यू.सी.सी.डी. का ISO 37120 प्लैटिनम-लेवल सर्टिफिकेशन हासिल करने के लिए, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को बधाई देते हुए खुशी हो रही है। ब्रैम्पटन, सभी ब्रैम्पटन निवासियों के लिए अधिक स्थिर, लचीला, खुशहाल, भागीदारी वाला और स्मार्ट भविष्य बनाने के लिए, शहर के स्टैंडर्ड्स डेटे का इस्तेमाल करने की अपनी प्रतिबद्धता में ग्लोबल तौर पर, 100 से अधिक डबल्यू.सी.सी.डी. शहरों के ग्रुप में श्रेष्ठ है। मेयर ब्राउन, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव

अफसर डेविड बैरिक, काउंसिल और स्टाफ को, डेटा फॉर कैनेडियन सिटीज प्रोजेक्ट के हिस्से को तौर पर इस उपलब्धि के लिए बधाई। डबल्यू.सी.सी.डी., आपके साथ काम करने के लिए मौजूद है, क्योंकि आप लगातार, अपनी सिटी के निवासियों के लिए बदलाव लाने और अपनी शानदार प्रगति का निरीक्षण करने के लिए, इस वार्षिक डेटे का प्रयोग करते हुए, इसकी रिपोर्ट करते हैं।”

- डा. पैट्रिशिया मैकारने (Patricia McCarney), प्रेजिडेंट और सी.ई.ओ., डबल्यू.सी.सी.डी.

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

**मीडिया संपर्क**

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)